



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित—  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 8] नई दिल्ली, फरवरी 13—फरवरी 19, 2005 शनिवार/माघ 24—माघ 30, 1926  
No. 8] NEW DELHI, FEBRUARY 13—FEBRUARY 19, 2005 SATURDAY/MAGHA 24—MAGHA 30, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)  
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

योजना आयोग

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2005

सा.का.नि० 59.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, योजना आयोग अनुसंधान सहायक (अर्थशास्त्र) भर्ती नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम योजना आयोग अनुसंधान सहायक (अर्थशास्त्र) भर्ती संशोधन नियम, 2005 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. योजना आयोग अनुसंधान सहायक (अर्थशास्त्र) भर्ती नियम, 2004 की अनुसूची के स्तंभ सं. 12 में "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन, की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"ऐसे संगणक श्रेणी-I जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने विहित अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उन्होंने संगणक श्रेणी-I में अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।"

[फा. सं. ए-12018/1/2003-प्रशा.- II]

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम, सा.का.नि. सं. 21, तारीख 13 जनवरी, 2004, भारत के राजपत्र में तारीख 24-01-2004 को प्रकाशित किए गए थे।

**PLANNING COMMISSION**

New Delhi, the 11th February, 2005

**G.S.R. 59.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Planning Commission Research Assistant (Economics) Recruitment Rules, 2004, namely:—

1. (1) These rules may be called the Planning Commission Research Assistant (Economics) Recruitment (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Planning Commission Research Assistant (Economics) Recruitment Rules, 2004, in the Schedule, in Column No. 12, for the entry under the heading "Promotion", the following entry shall be substituted, namely:—

"Computer Grade I with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.

**Note:** Where juniors who have completed the prescribed qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they have completed the probationary period in the grade of Computer Grade I satisfactorily."

[F. No. A-12018/1/2003-Admn.-II]

K.K. CHHABRA, Under Secy.

**Foot Note:** The Principal rules were published in the Gazette of India dated 24-01-2004 vide G.S.R. No. 21 dated 13th January, 2004.

**वस्त्र मंत्रालय**

(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2005

**सा.का.नि. 60.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्टाफ कार ड्राइवर, कनिष्ठ गेस्टेटर आपरेटर, दफ्तरी और पैकर, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, वाणिज्य मंत्रालय भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ गेस्टेटर आपरेटर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय में कनिष्ठ गेस्टेटर आपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गेस्टेटर आपरेटर, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **आरंभिक गठन.**—वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने पर नियमित आधार पर कनिष्ठ गेस्टेटर आपरेटर के पद धारण किए हुए थे इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उनकी नियमित सेवा को अगली श्रेणी में प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

3. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

4. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान यह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

6. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के

अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती।

8. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपए)	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
कनिष्ठ गेस्टेटर	1* (2005)	साधारण केन्द्रीय	2650-65-	लागू नहीं	लागू नहीं होता
आपरेटर	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	सेवा, समूह 'घ', अराजपत्रित, अनुसचिबीय	3300-70- 4000 रु.	होता	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/स्थानान्तरण/ आमेलन किया जाएगा
--	---

11	12
प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा : केन्द्रीय सरकार के ऐसे समूह 'घ' कर्मचारी जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम चार वर्ष नियमित सेवा की हो और जो फोटो कॉपी प्रिन्टर या गेस्टेटर मशीनों को चलाने और उनके अनुरक्षण में प्रवीण है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा  
आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता।

[फा. सं. 12018/12/2002-डी.सी.एच.एल./स्था.-1]

एस. के. सामल, अपर विकास आयुक्त

### MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS)

New Delhi, the 9th February, 2005

**G.S.R. 60.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Staff Car Driver, Junior Gestetner Operator, Daftry and Packer, Office of the Development Commissioner for Handlooms, Ministry of Commerce Recruitment Rules, 1981, in so far as it relate to the post of Junior Gestetner Operator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Gestetner Operator, in the Office of the Development Commissioner for Handlooms, Ministry of Textiles, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms, Junior Gestetner Operator Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Initial constitution.**—The persons who are holding the posts of Junior Gestetner Operator on regular basis at the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules and their regular service shall be taken into account for the purpose of promotion to the next grade.

**3. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed hereto.

**4. Number of post, classification and scale of pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

**5. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, educational qualification and other matters relating to the said post shall be specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

**4. Disqualifications.**—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**7. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of the rules with respect to any class or category of persons.

**8. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, other backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Junior Gestetner Operator	1* (One) (2005) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 2650-65-3300-70-4000/-	Not applicable	Not applicable
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any
7		8		9	10
Not applicable		Not applicable		Not applicable	Not applicable
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation absorption and percentage of the posts to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made			
11		12			
By deputation	<b>By deputation :</b> Group-'D' employees of Central Government who have rendered at least four year's regular service in the grade and have proficiency in operating and maintaining Photocopy Printer or Gestetner Machines. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).				
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition				Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	
13				14	
Not applicable				Not applicable	

[F. No. 12018/12/2002-DCHL/Estt.-I]

S. K. SAMAL, Addl. Development Commissioner

413 GI/05-2

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2005

**सा.का.नि. 61.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, कनिष्ठ लेखा अधिकारी भर्ती (संशोधन) नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, कनिष्ठ लेखा अधिकारी भर्ती (संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, कनिष्ठ लेखा अधिकारी भर्ती (संशोधन) नियम, 2003 में नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।”

[सं. 12018/3/2002-डी.सी. (एच.एल.)/स्था.-I]

एस.के. सामल, अपर विकास आयुक्त

**टिप्पण :** मूल नियम सं. सा.का.नि. 452, तारीख 9 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र, तारीख 20 दिसम्बर, 2003 को प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 11th February, 2005

**G.S.R. 61.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms, Junior Accounts Officer Recruitment (Amendment) Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms, Junior Accounts Officer Recruitment (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms, Junior Accounts Officer Recruitment (Amendment) Rules, 2003, for rule 5, the following rules shall be substituted, namely :—

“Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service commission relax any of the provisions of the rules with respect to any class or category of persons.”

[No. 12018/3/2002-DC(HL)/Estt.-I]

S. K. SAMAL, Addl. Development Commissioner

**Foot Note :** The principal rules vide Notification No. G.S.R. 452 dated 9th December, 2003 were published in the Gazette of India dated 20th December, 2003.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2004

**सा.का.नि. 62.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 6 के खंड (iii-ख), के शीर्ष लघु शास्तियों के अधीन, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“(iii-ख) बिना संचयी प्रभाव के तथा उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिक से अधिक तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए समय वेतनमान में एक प्रास्थित की कटौती करके, इसे एक प्रास्थित अवनति की जाएगी।”

[फा. सं. ई(डी एंड ए) 2003/आरजी6-33]

वी. एन. माथुर, सचिव

पद टिप्पण : मूल नियम 14 सितम्बर, 1968 के का.आ. 3181 के तहत दिनांक 22 अगस्त, 1968 की अधिसूचना सं. ई(डी एंड ए)66/आर जी 6-9 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

क्र. सं.	अधिसूचना	तारीख	भारत के राजपत्र भाग II खंड 3 उप खंड (i) में प्रकाशित	
			सा.का.नि./का. आ. सं.	प्रकाशन की तारीख
1	2	3	4	5
1.	ई (डी एंड ए) 66 आर जी 6-9	10-04-69	1531	24-06-69
2.	ई (डी एंड ए) 67 आर जी 6-13	07-04-71	1925	08-05-71
3.	ई (डी एंड ए) 70 आर जी 6-63	09-06-71	2501	03-07-71
4.	ई (डी एंड ए) 70 आर जी 6-60	19-10-71	5078	06-11-71
5.	ई (डी एंड ए) 70 आर जी 6-41	21-10-71	4050	30-10-71
6.	ई (डी एंड ए) 70 आर जी 6-43	12-11-71	5264	04-12-71
7.	ई (डी एंड ए) 70 आर जी 6-52	25-03-72	9467	08-04-72
8.	ई (डी एंड ए) 70 आर जी 6-69	17-11-72	3918	25-11-72
9.	ई (डी एंड ए) 69 आर जी 6-60	05-02-73	—	—
10.	ई (डी एंड ए) 71 आर जी 6-60	13-07-73	2897	06-10-73
11.	ई (डी एंड ए) 75 आर जी 6-35	05-04-77	1413	14-05-77
12.	ई (डी एंड ए) 77 आर जी 6-46	07-07-78	2193	29-07-78
13.	ई (डी एंड ए) 78 आर जी 6-54	29-11-78	0364	23-12-78
14.	ई (डी एंड ए) 77 आर जी 6-30	07-04-78	—	—
15.	ई (डी एंड ए) 79 आर जी 6-26	17-08-79	3057	08-09-79
16.	ई (डी एंड ए) 79 आर जी 6-12	25-10-79	3777	17-11-79
17.	ई (डी एंड ए) 78 आर जी 6-61	22-11-79	—	—
18.	ई (डी एंड ए) 79 आर जी 6-39	31-12-79	0143	19-01-80
19.	ई (डी एंड ए) 78 आर जी 6-11	06-02-80	0441	23-02-80
20.	ई (डी एंड ए) 81 आर जी 6-72	31-08-82	—	—
21.	ई (डी एंड ए) 81 आर जी 6-63	10-08-83	साकानि/982	17-12-83
22.	ई (डी एंड ए) 81 आर जी 6-54	31-05-84	साकानि/632	23-06-84
23.	ई (डी एंड ए) 82 आर जी 6-29	30-03-85	1822	27-04-85
24.	ई (डी एंड ए) 83 आर जी 6-45	13-06-85	5667	06-07-85
25.	ई (डी एंड ए) 80 आर जी 6-25	20-01-86	साकानि/667	22-02-86
26.	ई (डी एंड ए) 85 आर जी 6-16	20-03-87	साकानि/241	04-04-87
27.	ई (डी एंड ए) 83 आर जी 6-14	28-08-87	साकानि/708	19-09-87
28.	ई (डी एंड ए) 87 आर जी 6-47	26-10-87	साकानि/869	21-11-87
29.	ई (डी एंड ए) 87 आर जी 6-146	10-05-88	साकानि/420	21-05-88
30.	ई (डी एंड ए) 88 आर जी 6-43	12-08-88	साकानि/759	17-09-88
31.	ई (डी एंड ए) 84 आर जी 6-44	20-10-89	साकानि/850	11-11-89
32.	ई (डी एंड ए) 88 आर जी 6-38	16-11-89	साकानि/900	02-12-89
33.	ई (डी एंड ए) 84 आर जी 6-44	22-11-90	—	—
34.	ई (डी एंड ए) 90 आर जी 6-112	16-11-90	साकानि/723	11-12-90

1	2	3	4	5
35.	ई (डी एंड ए) 91 आर जी 6-42	08-06-91	—	—
36.	ई (डी एंड ए) 90 आर जी 6-117	19-09-91	साकानि/568	05-10-91
37.	ई (डी एंड ए) 89 आर जी 6-80	20-01-92	साकानि/86	22-02-92
38.	ई (डी एंड ए) 90 आर जी 6-112	22-10-92	—	—
39.	ई (डी एंड ए) 92 आर जी 6-148	09-11-92	—	—
40.	ई (डी एंड ए) 92 आर जी 6-166	11-01-93	साकानि/63	30-01-93
41.	ई (डी एंड ए) 93 आर जी 6-94	23-06-94	साकानि/327	16-07-94
42.	ई (डी एंड ए) 95 आर जी 6-68	13-08-97	साकानि/422	27-12-97
43.	ई (डी एंड ए) 92 आर जी 6-151	06-11-97	साकानि/106	06-06-98
44.	ई (डी एंड ए) 94 आर जी 6-10	16-02-99	—	20-03-99
45.	ई (डी एंड ए) 98 आर जी 6-42	11-10-99	—	—
46.	ई (डी एंड ए) 2001 आर जी 6-29	31-10-2001	साकानि/617	24-11-2001
47.	ई (डी एंड ए) 87 आर जी 6-151	08-08-02	साकानि/342	24-8-2002
48.	ई (डी एंड ए) 98 आर जी 6-52	16-1-2003	साकानि/50	1-2-2003
49.	ई (डी एंड ए) 2002 आर जी 6 1	10-3-2003	साकानि/134	29-3-2003
50.	ई (डी एंड ए) 2004 आर जी 6-30	13-10-2004	साकानि/376	30-10-2004

## MINISTRY OF RAILWAYS

## (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 10th December, 2004

**G.S.R. 62.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Servants (Discipline and Appeal) (Second Amendment) Rules, 2004.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Rule 6 of the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, under heading Minor Penalties, for clause (iii-b), the following clause shall be substituted, namely :—

“(iii-b) Reduction to lower stage in the time scale of pay by one stage for a period not exceeding three years, without cumulative effect and not adversely affecting his pension;”.

[F. No. E (D&amp;A) 2003/RG 6-33]

V. N. MATHUR, Secy.

**Foot Note :** The Principal Rules were published in the Gazette of India *vide* Notification No. E (D&A) 66/RG 6-9, dated the 22nd August, 1968 *vide* S.O. 3181, dated the 14th September, 1968 and subsequently amended by :—

S. No.	Notification No.	Date	Published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (i) GSR/SO No.	Date of Publication
1	2	3	4	5
1.	E(D&A) 66 RG 6-9	10-04-69	1531	24-06-1969
2.	E(D&A) 67 RG 6-13	07-04-71	1925	08-05-1971
3.	E(D&A) 70 RG 6-63	09-06-71	2501	03-07-1971
4.	E(D&A) 70 RG 6-60	19-10-71	5078	06-11-1971
5.	E(D&A) 70 RG 6-41	21-10-71	4050	30-10-1971
6.	E(D&A) 70 RG 6-43	12-11-71	5264	04-12-1971
7.	E(D&A) 70 RG 6-52	25-03-72	9467	08-04-1972



1	2	3	4		
8.	E(D&A) 70 RG 6-69	17-11-72	3918		25-11-1972
9.	E(D&A) 69 RG 6-60	05-02-73	—		—
10.	E(D&A) 71 RG 6-60	13-07-73	2897		06-10-1973
11.	E(D&A) 75 RG 6-35	05-04-77	1413		14-05-1977
12.	E(D&A) 77 RG 6-46	07-07-78	2193		29-07-1978
13.	E(D&A) 78 RG 6-54	29-11-78	0364		23-12-1978
14.	E(D&A) 77 RG 6-30	07-04-78	—		—
15.	E(D&A) 79 RG 6-26	17-08-79	3057		08-09-1979
16.	E(D&A) 79 RG 6-12	25-10-79	3777		17-11-1979
17.	E(D&A) 78 RG 6-61	22-11-79	—		—
18.	E(D&A) 79 RG 6-39	31-12-79	0143		19-01-1980
19.	E(D&A) 78 RG 6-11	06-02-80	0441		23-02-1980
20.	E(D&A) 81 RG 6-72	31-08-82	—		—
21.	E(D&A) 81 RG 6-63	10-08-83	GSR/982		17-12-1983
22.	E(D&A) 81 RG 6-54	31-05-84	GSR/632		23-06-1984
23.	E(D&A) 82 RG 6-29	30-03-85	1822		27-04-1985
24.	E(D&A) 83 RG 6-45	<del>13-06-85</del>	5667		06-07-1985
25.	E(D&A) 80 RG 6-25	20-01-86	GSR/667		22-02-1986
26.	E(D&A) 85 RG 6-16	20-03-87	GSR/241		04-04-1987
27.	E(D&A) 83 RG 6-14	28-08-87	GSR/708		19-09-1987
28.	E(D&A) 87 RG 6-47	26-10-87	GSR/869		21-11-1987
29.	E(D&A) 87 RG 6-146	10-05-88	GSR/420		21-05-1988
30.	E(D&A) 88 RG 6-43	12-08-88	GSR/759		17-09-1988
31.	E(D&A) 84 RG 6-44	20-10-89	GSR/850		11-11-1989
32.	E(D&A) 88 RG 6-38	16-11-89	GSR/900		02-12-1989
33.	E(D&A) 84 RG 6-44	22-11-90	GSR/734		8-12-1990
34.	E(D&A) 90 RG 6-112	16-11-90	GSR/723		11-12-1990
35.	E(D&A) 91 RG 6-42	08-06-91	—		—
36.	E(D&A) 90 RG 6-117	19-09-91	GSR/568		05-10-1991
37.	E(D&A) 89 RG 6-80	20-01-92	GSR/86		22-02-1992
38.	E(D&A) 90 RG 6-112	22-10-92	GSR/504		14-11-1992
39.	E(D&A) 92 RG 6-148	09-11-92	—		—
40.	E(D&A) 92 RG 6-166	11-01-93	GSR/63		30-01-1993
41.	E(D&A) 93 RG 6-94	23-06-94	GSR/327		16-07-1994
42.	E(D&A) 95 RG 6-68	13-08-97	GSR/422		27-12-1997
43.	E(D&A) 92 RG 6-151	06-11-97	GSR/106		06-06-1998
44.	E(D&A) 94 RG 6-10	16-02-99	GSR/87		20-03-1999
45.	E(D&A) 98 RG 6-42	11-10-99	GSR/385		20-11-1999
46.	E(D&A) 2001/RG 6-29	31-10-2001	GSR/617		24-11-2001
47.	E(D&A) 87 RG 6-151	08-08-2002	GSR/342		24-8-2002
48.	E(D&A) 98 RG 6-52	16-01-2003	GSR/50		1-2-2003
49.	E(D&A) 2002/RG 6-1	10-3-2003	GSR/134		29-3-2003
50.	E(D&A) 2004 RG 6-30	13-10-2004	GSR/376		30-10-2004

**जल संसाधन मंत्रालय**

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2005

सा.का.नि. 63.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (अधिकारी सर्वेक्षक) भर्ती नियम, 1973 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस नियम को केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (अधिकारी सर्वेक्षक) भर्ती संशोधन नियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (अधिकारी सर्वेक्षक) भर्ती संशोधन नियम, 1973 में विद्यमान प्रविष्टियों के लिए अनुसूची के कॉलम 9 को निम्नलिखित प्रविष्टियों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

उम्र — नहीं;

शैक्षिक योग्यता — नहीं, परन्तु किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से सिविल इंजीनियरिंग अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अथवा सिविल इंजीनियरिंग में लाइसेंसिएट अथवा सर्वेक्षण में डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र धारक अवश्य होने चाहिए।

[फा. सं. 21/16/99-जीडब्ल्यू-1]

सोहन एस. सैनी, अवर सचिव

टिप्पणी : सा.का.नि. 1304, दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 के द्वारा भारत के राजपत्र में मूल नियम प्रकाशित किए गए थे और उसके उपरान्त सा.का.नि. 114, दिनांक 8 फरवरी, 1986 और सा.का.नि. 138, दिनांक 29 मार्च, 2003 के द्वारा उनमें संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF WATER RESOURCES**

New Delhi, the 8th February, 2005

G.S.R. 63.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board (Officer Surveyor) Recruitment Rules, 1973, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board Officer Surveyor Recruitment Amendment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Ground Water Board (Officer Surveyor) Recruitment Amendment Rules, 1973, in the Schedule, in column 9, for the existing entries the following entries shall be substituted, namely :—

"Age—No;

**Educational Qualification**—No, but must possess a Diploma in Civil Engineering or Mining Engineering or Licentiate in Civil Engineering or Diploma or Certificate in Surveying from a Recognized University or Institution".

[F. No. 21/16/99-GW.-I]

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

**Note :** The Principal Rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 1304, dated the 1st December, 1973 and subsequently amended vide GSR 114 dated 8th February, 1986 and GSR 138, dated 29th March, 2003.

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

( रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय )

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2005

सा.का.नि. 64.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रम मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, प्रशिक्षण निदेशालय, आशुलिपिक (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को संक्षिप्त नाम श्रम मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, प्रशिक्षण निदेशालय, आशुलिपिक (समूह 'ग') पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, प्रशिक्षण निदेशालय, आशुलिपिक (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2002 की अनुसूची में आशुलिपिक श्रेणी II के सामने, स्तम्भ 12, के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा जाएगा, अर्थात् :—

“प्रोन्नति :

ऐसे आशुलिपिक श्रेणी III, जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो”।

[सं. डीजीईटी-ए-12018/5/2004-टीए-II]

एन. लंका, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र अधिसूचना सं. सा.का.नि. 475, तारीख 8 नवम्बर, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**  
(DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT AND TRAINING)

New Delhi, the 9th February, 2005

**G.S.R. 64.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Labour and Employment, Directorate General of Employment and Training, Directorate of Training Stenographers (Group ‘C’) posts Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Labour and Employment, Directorate General of Employment and Training, Directorate of Training, Stenographers (Group ‘C’) posts Recruitment (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Labour and Employment, Directorate General of Employment and Training, Directorate of Training, Stenographers (Group ‘C’) posts Recruitment Rules, 2002—

(a) in rule 1, in sub-rule (1), for the words “Ministry of Labour”, the words “Ministry of Labour and Employment” shall be substituted;

(b) in the Schedule, against the post of Stenographer Grade II, for the existing entry under column 12, the following entry shall be substituted, namely :—

“Promotion :

Stenographer Grade III with eight years regular service in the grade.”

[No. DGET-A-12018/5/2004-TA-II]

N. LANKA, Dy. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India vide Notification number G.S.R. 475 dated the 8th November, 2002.

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय**

(शहरी विकास विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2005

**सा.का.नि. 65.**—दिनांक 20 अप्रैल, 2004 के सा.का.नि. 107-अ द्वारा प्रकाशित शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निदेशक (उद्यान), उप निदेशक (उद्यान) तथा सहायक निदेशक (उद्यान) के समूह ‘क’ तथा समूह ‘ख’ पदों की भर्ती पद्धति के संशोधन को विनियमित करने संबंधी अधिसूचना में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए :—

1. उप निदेशक (उद्यान के पद के लिए अनुसूची 2 में

कॉलम 12 (ख) के अंतर्गत

(i) शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव (i) में निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाए :—

“या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या समतुल्य से पुष्प कृषि विज्ञान तथा भू-दृश्यन/उद्यान में स्नातकोत्तर उपाधि”

(ii) अंत में आने वाले “प्रतिनियुक्ति की अवधि ..... आवेदन पत्रों की प्राप्ति” जिसकी दो बार पुनरावृत्ति हुई है, अंतिम प्रविष्टि को हटा दिया जाए।

2. सहायक निदेशक (उद्यान) के पद के लिए अनुसूची 3 में

कॉलम 8 (i) के अंतर्गत

शैक्षिक अर्हता (i) तथा शैक्षिक अर्हता के बीच (ii) में शब्द “या” को समाविष्ट किया जाए।

**कॉलम 8 (ii) के अंतर्गत**

पंक्ति दो में 'स्नातक उपाधि' के स्थान पर "स्नातकोत्तर उपाधि" प्रतिस्थापित किया जाए।

**कॉलम 11 के अंतर्गत**

"नब्बे प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा तथा दस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा" शब्दों के स्थान पर "90% प्रोन्नति द्वारा तथा 10% सीधी भर्ती द्वारा" प्रतिस्थापित किया जाए।

**कॉलम 14 के अंतर्गत**

"प्रत्येक अवसर पर पद पर नियुक्त करने के लिए तथा इन नियमों के किसी प्रावधान में संशोधन या शिथिलता देने के लिए" शब्दों को "सीधी भर्ती करते समय तथा इन नियमों के किसी प्रावधानों को संशोधित करते समय या शिथिलता देते समय" से प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. 26/4/2001-एस एंड डी/ईडब्ल्यू-1]

मेहर सिंह, अवर सचिव

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION**

(Department of Urban Development)

**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 14th February, 2005

**G.S.R. 65.**—In the Notification regulating the amendment to the method of recruitment to the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Central Public Works Department Group 'A' and Group 'B' posts of Director (Horticulture), Deputy Director (Horticulture) and Assistant Director (Horticulture), Recruitment Rules, 2004, published vide GSR No. 107-E dated 20th April, 2004, the following may be substituted :—

**1. In Schedule 2 for the post of Deputy Director (Horticulture)****Under Column 12 (b)**

(i) In Educational Qualification and Experience (i), the following may be inserted :—

"or

Masters Degree in Floriculture and Landscaping/Horticulture from a recognized University/Institute or equivalent."

(ii) "Period of deputation ..... receipt of applications" appearing at the end, which has been repeated twice, the last entry may be deleted.

**2. In schedule 3 for the post of Assistant Director (Horticulture)****Under Column 8 (i)**

In between Educational Qualification (i) and Educational Qualification (ii) the word "or" may be inserted.

**Under Column 8 (ii)**

In line two, the words 'Bachelor Degree' may be substituted by "Masters Degree".

**Under Column 11**

The words 'Ninety per cent by promotion and ten per cent by direct recruitment' may be substituted by "90% by promotion and 10% by direct recruitment".

**Under Column 14**

The words 'for appointment to the post on each occasion and for amending or relaxing any provision of these rules' may be substituted with words "while making direct recruitment and while amending or relaxing any provisions of these rules".

[F.No. 26/4/2001-S&D/EW-1]

MEHAR SINGH, Under Secy.